



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, नवम्बर 8, 2007/कार्तिक 17, 1929

No. 102]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 8, 2007/KARTIKA 17, 1929

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2007

आ.अ. 125(अ).—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा 2 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना संख्या 56/2007(i)/न्या. अनु.-III, दिनांक 10 मार्च, 2007 के द्वारा यथा संशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 56/2007/न्या. अनु.-III, दिनांक 6 जनवरी, 2007 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

I. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी-II (राज्यीय दलों) में—

(i) गोवा से संबंधित क्रम सं. 5, के सामने, स्तम्भ 3, 4 एवं 5 में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः अन्तःस्थापित की जाएंगी—

3	4	5
3 - सेव गोवा फ्रंट	बाद में अधिसूचित किया जाएगा।	1761, "सब्रे", अमृतनगर, गोवेल, फतौरदा, गोवा।

(ii) मणिपुर से संबंधित क्रम सं. 13, के सामने :—

(क) स्तम्भ 3, के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टि 'मणिपुर पीपुल्स पार्टी' के स्थान पर

'1-मणिपुर पीपुल्स पार्टी' प्रतिस्थापित की जाएगी।

(ख) स्तम्भ 3, 4 एवं 5 में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियों क्रमशः अन्तः स्थापित की जाएंगी ।

3	4	5
2 - नैशनल पीपुल्स पार्टी	बाद में अधिसूचित किया जाएगा ।	दूसरी मंजिल, एमडीयू बिल्डिंग, एम.जी. एवेन्यु, इम्फाल - 795001, (मणिपुर)
3- राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन	13- वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001.

II उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी-III (रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों) में-

(i) स्तम्भ 1, 2 व 3 के अन्तर्गत क्र० सं० 849 पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियों क्रमशः अन्तः स्थापित की जाएंगी-

850	नैशनल सैक्युलर पार्टी	सी-20/बी, फर्स्ट फ्लोर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110016.
851	बारथा समुथाया मुनेत्र मुन्नानी,	400/12, प्रथम तल, टाऊनशिप कमर्शियल कॉम्प्लैक्स, कामराजर नगर, मेन रोड, अवाड़ी, चेन्नई - 600 071, तमिल नाडू ।
852	टीपू सुल्तान नैशनल रिपब्लिक पार्टी,	नं० 24, फर्स्ट फ्लोर, 13वां क्रॉस, बापूजीनगर, मैसूर रोड, बेंगलूर - 560 026.
853	लघुजन समाज विकास पार्टी,	बड़ापुरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश ।
854	प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी	गाँव- हकीमाबाद, तहसील - आष्टा, जिला - सिहोर, मध्य प्रदेश ।
855	न्यू सोशलिस्ट मूवमेंट,	104, महाराणा प्रताप कॉम्प्लैक्स, अपोजिट एल्लीसब्रिज, पो० आ० एल्लीसब्रिज, अहमदाबाद-380 006, गुजरात ।
856	राष्ट्रीय क्रांतिकारी जनता पार्टी,	407, दुर्गा चैम्बर्स, डी० बी० गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005.

857	समाजवादी क्रान्ति दल,	3/197, विधायक पुरम, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
858	समृद्धा ओडिशा	201, सीतलकुंज अपार्टमेंट, प्लॉट नं० एम-63, मधुसूदन नगर, भुवनेश्वर - 751001, उड़ीसा ।
859	राष्ट्रीय गोडवाना पार्टी	सारखेल हाऊस, तिफरा, बिलासपुर - 495223, छत्तीसगढ़ ।
860	उलजयपाली मक्कल काची	74, शान्ति नगर, प्रथम गली, एस० एम० नगर पोस्ट, चेन्नई - 600 062, तमिलनाडु ।
861	अखिल भारतीय क्रान्ति दल	7, प्रेम कॉलोनी, प्रगति पथ, पथम तल, कल्याण नगर, हनुमान मन्दिर के पीछे, टोंक रोड, जयपुर - 302011.
862	भारतीय बहुजन पार्टी	156, भरोली, शाहगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
863	एकलव्य समाज पार्टी	53, बी- ब्लॉक, पुराना दारुलशफा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 251 001.
864	भारतीय परिवर्तन पार्टी	70-ए, डी.डी.ए. फ्लैट, पाण्डव नगर, मैट्रो स्टेशन शादीपुर के पास, नई दिल्ली - 110008.
865	राजस्थान जन सत्ता	ग्रामीण कन्या छात्रावास, वाटर वर्क्स के पास, सादुलपुर, चुरू - 331023, राजस्थान ।
866	भारतीय कांग्रेस (एम.)	16, बतरा कालोनी, एम.टी.एक्स (सोनीपत), हरियाणा ।
867	एंटी रिजर्वेशन पार्टी ऑफ इंडिया	हाऊस नं०. 1184, सैक्टर -21-बी, चण्डीगढ़ ।
868	युनाइटेड वूमन फ्रंट	4, कृष्णा मैनुन मार्ग, नई दिल्ली - 110011
869	विकास परिषद्	62-ए, शास्त्री कॉलोनी, अम्बाला कैन्ट - 133001, हरियाणा ।

870	नामाधु द्रविड इयक्कम	एस.सी.सी. एन्थनी पिल्लई इलम, न्यू न०.41, ओल्ड न०.18, 7 क्रॉस स्ट्रीट, शिनाय नगर पश्चिम, चेन्नई - 600030, तमिलनाडु ।
871	ऑल इंडिया समुथुवा मक्खल काच्ची	2, कल्याणी नगर, कट्टीवक्कम, चेन्नई - 600041, तमिल नाडु ।
872	लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी	20, भारथी नगर, अलगप्पापुरम कराईकुडी - 630003, तमिल नाडु ।
873	नैशनल जनक्रान्ति दल	के-316, बस टर्मिनल के पास, कुतुब मीनार के सामने, एम.बी. रोड, लाडो सराय, नई दिल्ली - 110030.
874	हिन्दुस्तानी क्लासिक पीपुल्स पार्टी	69, अशोक मोहल्ला, नांगलोई, दिल्ली - 110041.
875	विश्व हिन्दुस्तानी संगठन	3/105, आनन्दनगर, 100 फीट, रिंग रोड, सैटेलाइट वैजलपुर, अहमदाबाद, गुजरात ।
876	झारखण्ड जन मोर्चा	द्वितीय मंजिल, अजमेरी टावर, मल्लाह टोली, रांची - 834001, झारखण्ड ।
877	कोशल क्रान्ति दल	टैलिफोन एक्सचेंज रोड, रूगुडी पारा, बालेनगीरस - 767001, उड़ीसा ।
878	हरियाणा जनहित कॉंग्रेस (बीएल)	135, गोल्फ लिक्स, नई दिल्ली - 110003.

(ii) क्र० सं० 516 में " नैशनल पीपुल्स पार्टी " से संबंधित स्तम्भ 1, 2 व 3 की प्रविष्टियां हटाई जाएगी ।

(iii) क्रम सं० 185, के सामने स्तम्भ 2, के अधीन विद्यमान प्रविष्टियां ' भारतीय राष्ट्र परिषद् ' प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी ।

- (iv) क्रम सं0 822, के सामने स्तम्भ 2, के अधीन विद्यमान प्रविष्टियां " वेस्ट बंगाल सोशलिष्ट पार्टी " प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी ।
- (v) क्रम सं0 161, के सामने स्तम्भ 2, के अधीन विद्यमान प्रविष्टियां " भारतीय समाज शक्ति पार्टी (आर) " प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी ।
- (vi) क्रम सं0 77, के सामने स्तम्भ 2, के अधीन विद्यमान प्रविष्टियां " आजसू पार्टी " प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी ।
- (vii) क्रम सं0 604, के सामने स्तम्भ 2, के अधीन विद्यमान प्रविष्टियां " भारतीय लोक विकास पार्टी " प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी ।
- (viii) क्रम सं0 175, के सामने स्तम्भ 2, के अधीन विद्यमान प्रविष्टियां " भारतीय पीपुल्स पार्टी " प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी ।
- (ix) क्रम सं0 609, के सामने स्तम्भ 3, के अधीन विद्यमान प्रविष्टियां " अनिल भारती भवन, 43-ए, सुखवीर नगर, कराला, नई दिल्ली - 110081 " प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी ।
- (x) क्रम सं0 656, के सामने स्तम्भ 3, के अधीन विद्यमान प्रविष्टियां " बी-4ए/25, रानाप्रताप बाग, दिल्ली - 110007 " प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी ।
- (xi) क्रम सं0 39, के सामने स्तम्भ 3, के अधीन विद्यमान प्रविष्टियां "श्री कृष्णबोध धाम, 7, शंकराचार्य मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली - 110054 " प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी ।
- (xii) क्रम सं0 737, के सामने स्तम्भ 3, के अधीन विद्यमान प्रविष्टियां " 4/8, त्यागराज नगर, सफदरजंग बस टर्मिनल के समीप, नई दिल्ली - 110003 " प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी ।
- (xiii) क्रम सं0 357, के सामने स्तम्भ 3, के अधीन विद्यमान प्रविष्टियां "बी-24, इन्दिरा नगर, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर -190001 " प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी ।

- (xiv) क्रम सं० 386, के सामने स्तम्भ 3, के अधीन विद्यमान प्रविष्टियां ' क्वाटर न० एल.आई.जी.एच.-1/7, हाऊसिंग कॉलोनी, दलपतपुर (चौदवा), आरा, बिहार - 802312 ' प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी ।
- (xv) क्रम सं० 692, के सामने स्तम्भ 2 एवं 3, के अधीन विद्यमान प्रविष्टियाँ क्रमशः ' रिवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ़ केरला ( बोलसेविक), आर.एस.बी.पी." एवं ' केरल स्टेट कमिटी ऑफिस, फ्यूचर सेंटर, सहोदरा, समाजम रोड, चेट्टीकुलंगारा, तिरुवनन्थापुरम, केरला ' प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी ।
- (xvi) क्रम सं० 741, के सामने स्तम्भ 2 एवं 3, के अधीन विद्यमान प्रविष्टियाँ क्रमशः ' सिक्कीम हिमाली राज्य परिषद् पार्टी ' एवं ' तुलसीकुंज बिल्डिंग, टेलिफोन एक्सचेंज के पास, पी.ओ. दारा गाँव, 31ए, नेशनल हाइवे, टेडोंग बाजार, टेडोंग, गंगटोक - 737102 ' प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी ।

[फा. सं. 56/2007(ii)/न्या. अनु.-III]

आदेश से,

के. एफ. विल्फ्रेड, सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2007

**O.N. 125(E).**—In pursuance of sub-paragraph (2) of Paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission of India hereby makes the following further amendments to its Notification No. 56/2007/J.S.-III, dated 6th January, 2007, as amended vide Notification No. 56/2007(i)/J.S.-III, dated 10th March, 2007, namely :—

#### I. In Table II (State Parties), appended to the said Notification—

- (i) against Serial No. 5, relating to Goa, after the existing entries, the following entries shall be inserted under columns 3, 4 and 5 respectively :—

3	4	5
3— Save Goa Front	(To be notified later on)	1761, Sabre, Amrutnagar, Goghal, Fatorda, Goa.

#### (ii) against Serial No. 13, relating to Manipur—

- (a) under column 3, the existing entries 'Manipur People's Party' shall be numbered and substituted by '1. Manipur People's Party'.
- (b) after the existing entries, the following entries shall be inserted under columns 3, 4 and 5 respectively :—

- (b) after the existing entries, the following entries shall be inserted under column 3, 4 & 5 respectively:-

3	4	5
2- National People's Party	(To be notified later on)	2 <sup>nd</sup> Floor, MDU Building, M.G. Avenue, Imphal – 795001 (Manipur).
3- Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp	13, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi – 110001.

II In Table III (Registered un-recognised parties), appended to the said Notification:

- (i) after the existing entries at Sl. No. 849, the following entries shall be inserted under Column 1, 2 & 3 respectively: -

1	2	3
850	National Secular Party	C-20/B, 1 <sup>st</sup> Floor, Green Park Extention , New Delhi-110 016.
851	Baaratha Samuthaya Munnetra Munnani	400/12, Ist Floor, Township Commercial Complex, Kamarajar Nagar Main Road, Avadi, Chennai – 600 071, Tamil Nadu
852	Tippu Sultan National Republic Party	No.24, Ist Main, 13 <sup>th</sup> Cross, Bapujinagar, Mysore Road, Bangalore – 560 026 Karnataka
853	Laghujan Samaj Vikas Party	Badapura, Lalitpur, Uttar Pradesh
854	Prajatantrik Samadhan Party	Village- Hakimabad, Tehsil- Aasta, Distt.- Sihore, Madhya Pradesh.
855	New Socialist Movement	104, Maharana Pratap Complex Opp. Ellisbridge, P.O. – Ellisbridge, Ahmedabad – 380 006. Gujarat.
856	Rashtriya Krantikari Janata Party	407, Durga Chambers, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi – 110005.

857	Samajwadi Kranti Dal	3/197, Vidhayak Puram, Vinay Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
858	Samruddha Odisha	201, Sitalkunj Apartment, Plot No. M63, Madhusudan Nagar, Bhubaneswar – 751001, Orissa.
859	Rashtriya Gondvana Party	Sarkhel House, Tiffra, Bilaspur – 495223 Chhattisgarh.
860	Ulzaipali Makkal Katchy	74, Santhi Nagar, Ist Street, S.M. Nagar Post, Chennai – 600 062 Tamil Nadu.
861	Akhil Bharatiya Kranti Dal	7, Prem Colony, Pragati Path, Ist Floor, Kalyan Nagar, Behind Hanuman Mandir, Tonk Road, Jaipur – 302011, Rajasthan.
862	Bharatiya Bahujan Party	156, Bharauli, Shahganj, Jaunpur, Uttar Pradesh.
863	Eklavya Samaj Party	53, B – Block, Old Darulshapha, Lucknow, Uttar Pradesh – 251 001.
864	Bharatiya Parivartan Party	70-A, DDA Flat, Pandav Nagar, Near Metro Station Shadipur, New Delhi – 110008.
865	Rajasthan Jan Satta	Gramin Kanya Chhatrawas, Near Water Works, Sadulpur, Churu-331023 Rajasthan
866	Bharatiya Congress (M)	16, Batra Colony, M.T.X. (Sonapat), Haryana.
867	Anti Reservation Party of India	H.No. 1184, Sector-21-B, Chandigarh.
868	United Women Front	4, Krishna Menon Marg, New Delhi – 110011.
869	Vikas Parishad	62A, Shastri Colony, Ambala Cantt., Haryana – 133001.



870	Namadhu Dravida Iyakkam	SCC Anthony Pillai Illam, New No.41, Old No.18, 7 <sup>th</sup> Cross Street, Shenoy Nagar West, Chennai – 600030, Tamil Nadu.
871	All India Samathuva Makhal Katchi	2, Kalyani Nagar, Kattivakkam, Chennai – 600041, Tamil Nadu.
872	Lenin Communist Party	20, Bharathinagar, Alagappapuram, Karaikudi – 630003, Tamil Nadu.
873	National Jankranti Dal	K-316, Near Bus Terminal, Opposite Qutub Minar, M.B. Road, Lado Sarai, New Delhi – 110030.
874	Hindustani Classic People's Party	69, Ashok Mohalla, Nangloi, Delhi – 110041.
875	Vishwa Hindustani Sangathan	3/105, Anandnagar, 100 ft. Ring Road, Satelite Vejalpur, Ahmedabad, Gujarat.
876	Jharkhand Jan Morcha	IInd Floor, Ajmeri Tower, Mallah Toli, Ranchi – 834001, Jharkhand
877	Kosal Kranti Dal	Telephone Exchange Road, Rugudi Para Balengir – 767 001, Orissa
878	Haryana Janhit Congress (BL)	135, Golf Links, New Delhi – 110003.

- (ii) the entries in column 1, 2 & 3 at Serial No. 516, relating to "National People's Party" shall be deleted.
- iii) against Serial No. 185, the existing entry under column 2, shall be substituted by the entry "Bharatiya Rashtra Parishad".
- (iv) against Serial No. 822, the existing entry under column 2, shall be substituted by the entry "West Bengal Socialist Party".
- (v) against Serial No. 161, the existing entry under column 2, shall be substituted by the entry "Bharatiya Samaj Shakti Party (R)".

- (vi) against Serial No. 77, the existing entry under column 2, shall be substituted by the entry "AJSU Party".
- (vii) against Serial No.604, the existing entry under column 2, shall be substituted by the entry "Bharatiya Lok Vikas Party".
- (viii) against Serial No.175, the existing entry under column 2, shall be substituted by the entry "Bharatiya Peoples Party".
- (ix) against Serial No. 609, the existing entries under column 3, shall be substituted by the entries "Anil Bharati Bhawan, 43-A, Sukhbir Nagar, Karala, New Delhi-110081"
- (x) against Serial No. 656, the existing entries under column 3, shall be substituted by the entries "B-4A/25, Rana Pratap Bagh, Delhi-110007.
- (xi) against Serial No. 39, the existing entries under column 3, shall be substituted by the entries "Shri Krishanbodh Dham, 7, Shankracharya Marg, Civil Lines, Dehli-110054".
- (xii) against Serial No.737, the existing entries under column 3, shall be substituted by the entries "4/8, Thayagraj Nagar, Near Safdarjung Bus Terminal, New Delhi-110003"
- (xiii) against Serial No. 357, the existing entries under column 3, shall be substituted by the entries "B-24, Indra Nagar, Srinagar, Jammu & Kashmir-190001".
- (xiv) against Serial No. 386, the existing entries under column 3, shall be substituted by the entries "Qr. No. L.I.G.H.-1/7, Housing Colony, Dalpatpur (Chandva), Aara, Bihar-802312".

- (xv) against Serial No. 692, the existing entries under column 2, shall be substituted by the entries "Revolutionary Socialist Party of Kerala (Bolshevik) RSPB" and the existing entries under column 3, shall be substituted by the entries "Kerala State Committee Office, Future Centre, Sahodara, Samajam Road, Chettikulangara, Thiruvananthapuram, Kerala".
- (xvi) against Serial No. 741, the existing entries under column 2, shall be substituted by the entries "Sikkim Himali Rajya Parishad Party" and the existing entries under column 3, shall be substituted by the entries "Tulsikunj Building, Near Telephone Exchange, P.O. – Dara Gaon, 31A, National Highway, Tadong Bazar, Tadong, Gangtok—737102, Sikkim".

[F.No. 56/2007(ii)/J.S.-III]

By Order,

K. F. WILFRED, Secy.